



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21—फरवरी 27, 2004 (फाल्गुन 2, 1925)  
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21—FEBRUARY 27, 2004 (PHALGUNA 2, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 5 जनवरी 2004

नई दिल्ली-110069, दिनांक 1 जनवरी 2004

सं. ए-35015/1/2004-प्रशा.-2--माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा, बी. एस. घुम्मान, प्रधान निजी सचिव को 19.12.2003 से 29.2.2004 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, आयोग कार्यालय में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के विशेष सहायक (ग्रुप 'क', राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर विशेष सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान उनका वेतन कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5.1.94 के का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एस. आनन्दन  
अवर सचिव (प्रशा.)  
कृते अध्यक्ष

सं. ए-35014/1/2001-प्रशा.-2--इस कार्यालय की दिनांक 17.1.2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री हरमोहिन्दर सिंह की संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी के पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि की दिनांक 5.1.2004 से 4.1.2005 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि के दौरान श्री हरमोहिन्दर सिंह का वेतन समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.94 के का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

कै. एस. सम्मत  
अवर सचिव (प्रशा.)

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2004

सं. 2/12/04-प्रशासन/1818--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 22.01.2004 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :-

(i) श्री वी. के सैनी

(ii) श्री मुकेश कुमार

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति समय-समय पर सेशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्ट्यफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल

उप सचिव (प्रशासन)

दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. 2/4/04-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित स्थायी सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 03.02.2004 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न आधार पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

(i) श्री विजय कुमार सैनी

(ii) श्री मुकेश कुमार

(iii) श्री फ्रांसिस एक्का

मांगे लाल

उप सचिव (प्रशासन)

## गृह मंत्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2004

सं. ओ.दो.-5493/03-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से स्वेच्छिक-सेवा-निवृत्त होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 1.6.2003 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री दलीप सिंह, सहायक कमान्डेन्ट (आईआरएलए-5493) 6 बटालियन, के. रि. पु. बल, के उनके पद से दिनांक 01.10.2003 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया गया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.10.2003 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

## महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. ई-28017/5/अधि.के.नि./अस्वास्थ्य/कार्मिक-2/311--केन्द्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री आर. रविन्द्रनाथन ने दिनांक 17.01.2004 (पूर्वाह्न) से उप कमान्डेन्ट, के.ओ.सु. बल इकाई कालीकट एयरपोर्ट, केरल के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय

महानिदेशक/केओसुब

## भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं. प्रशा.-I/का. आ. सं.-268--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली श्रीमती के. एस. रामकृष्णा, अनुभाग अधिकारी, जो इस समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को एफ.आर. 22(II) के अन्तर्गत रु.7,450-225-11,500/- के वेतनमान में अस्थायी आधार पर दिनांक 01.01.2004 से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप-बी) के रूप में अगले आदेश तक प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं।

ह./- अपठनीय

उप निदेशक (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, झारखंड

(स्थानीय लेखा शाखा)

रांची, दिनांक 30 जनवरी 2004

का.आ. सं. एल. ए.-प्र.1-स्था.1/स.ले.प.अ./प्रोन्नति-75/2003-04--महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड, रांची ने अपने कार्यालय के स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को 01.01.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है :-

1. श्री संजीव कुमार वर्मा

2. श्री सैयद जिया नैयर शाहाबी

मनीष कुमार

स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. एल.ए. एडमिन.1/ईस्ट-1/प्रो. ले.प.अ. से व.ले.प.अ./14/03-04--महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड, रांची ने स्थानीय लेखा परीक्षा

शाखा के निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को दिनांक 01.01.2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश तक वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में प्रोन्नति दी है :-

| क्रम सं. | नाम                  |
|----------|----------------------|
| 1.       | श्री डी. सी. चौधरी   |
| 2.       | श्री रामानन्द प्रसाद |
| 3.       | श्री एच. के. सिंह    |

मनीष कुमार  
स्थानीय लेखा परीक्षक

कार्यालय महालेखाकार (ले. व हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 1 जनवरी 2004

सं. प्रशा.-1/1038-xxv/2003-04/409--महालेखाकार (ले. व हक.), पश्चिम बंगाल ने श्री प्रकाश चन्द्र बसु, सहायक लेखा अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में, लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी है।

लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति होने पर, श्री बसु, अपने वेतन निर्धारण के लिए इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के अन्तर्गत अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

उनका तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

प्रधिकार : म. ले. के दिनांक 01.01.2004 का आदेश।

एन. एन. हालदार  
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 3 फरवरी 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के संवर्ग को रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दशाए गए तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

| क्रम सं. | कर्मचारी का नाम           | का.आ. से.      | पदोन्नति तिथि           |
|----------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 1        | 2                         | 3              | 4                       |
| 1.       | सर्वश्री मोहम्मद सादत अली | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 2.       | के. वी. अकर मोहन खन्ना    | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |

| 1   | 2                            | 3              | 4                       |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 3.  | टी. सीताराम मूर्ति           | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 4.  | के. सालमन राय                | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 5.  | एस. दत्तत्रेय शर्मा          | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 6.  | एम. राम मूर्ति-II            | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 7.  | एम. सूर्यनारायण मूर्ति-II    | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 8.  | ए. राजगोपाल                  | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 9.  | के. विश्वनाथम-II             | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 10. | वाई. रेजिरेड्डी              | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 11. | वी. रामलु                    | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 12. | एम. लक्ष्मीपतिराव            | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 13. | सी. वैकटराम-IV               | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 14. | के. एस. सत्यनारायण मूर्ति    | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 15. | वी. सुरेश कुमार              | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 16. | पी. राजगोपाल राव-I           | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 17. | ई. अरसु                      | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 18. | बी. हनुमन्त                  | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 19. | बी. श्री कृष्णा              | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 20. | बी. वी. रामकृष्ण राजु        | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 21. | एम. राम कृष्णा               | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 22. | ए. एस. एस. वी. एस. एस. शर्मा | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |

| 1   | 2                      | 3              | 4                       |
|-----|------------------------|----------------|-------------------------|
| 23. | एम. संजीव रेड्डी       | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 24. | जी. शिव प्रसाद         | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 25. | पुलिपाका श्रीनिवास     | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 26. | जी. एल. नरसिंहा राव-II | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |
| 27. | टी. राम प्रसाद         | 161/31.12.2003 | 01.01.2004<br>(पूर्वाह) |

उपर्युक्त पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव यदि हो, डाले बिना, और रिट याचिका जो आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट/भारतीय सुप्रीम कोर्ट/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आदि में यदि हो तो उसके परिणाम के अधीन होगा।

भारत सरकार का.ज्ञा. सं. एफ-7/1/80-स्थापना (पी-1) दिनांक 26.9.1981 तथा एफ-13/26/82-स्थापना (पी. ए), दिनांक 8.2.1983 के शर्तोंनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।

श्रीनिवासु  
उप महालेखाकार (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त लघु उद्योग कार्यालय  
नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2004

सं. ए-19018/286/77-प्रशा. (राज.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री माधव नारायण गुहा, निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली दिनांक 31.01.2004 (अपराह) से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-19018/757/84-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, जम्मू में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (खाद्य), श्री इन्द्र जी खुशू को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में उप निदेशक (खाद्य) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 24.12.2003 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय  
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. 323/बी/ए-19011(1-ए.जी.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री अरिन्दम गुह को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में, स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक 5.12.2003 के पूर्वाह से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 339/बी/ए-19011(1-डी.के.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्रीमती दीपली कपूर को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में, स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक 10.10.2003 के पूर्वाह से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
(फिल्म प्रभाग)

मुम्बई-26, दिनांक 23 जनवरी 2004

सं. ए-31014/3/86-स्थापना-II--मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग निम्नलिखित फिल्म प्रभाग के अधिकारियों के नामों के आगे दर्शायी गयी तिथि से शाखा प्रबन्धक के पद पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम         | तिथि       |
|----------|------------------------|------------|
| 1.       | श्री मा सेल्वम         | 01.04.1988 |
| 2.       | श्री के. सी. सागर      | 09.04.1992 |
| 3.       | श्री अनिल कुमार एन.    | 03.10.1998 |
| 4.       | श्री के. वेणूगोपाल     | 01.07.1998 |
| 5.       | श्रीमती गीता पायस      | 24.10.1998 |
| 6.       | श्री पी. राम मनोहर राव | 31.03.1999 |
| 7.       | श्री आर. के. चन्देल    | 03.06.1998 |
| 8.       | श्री सुमय मुखर्जी      | 16.03.2001 |
| 9.       | श्री ए. के. महाराज     | 27.12.2002 |

टी. टी. फर्नांडिस  
सहा. प्रशासनिक अधिकारी  
कृते मुख्य निर्माता

सं. ए-31014/31/87-स्थापना-II--मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग  
निम्नलिखित फिल्म प्रभाग के अधिकारी के नाम के आगे दर्शायी गयी  
तिथि से छायाकार के पद पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं :--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम      | तिथि       |
|----------|---------------------|------------|
| 1.       | श्री के. एस. श्रीधर | 10.03.2001 |

टी. टी. फनीडिसे  
सहा. प्रशासनिक अधिकारी  
बृहत् मुख्य निर्माता

| 1  | 2                     | 3          |
|----|-----------------------|------------|
| 4. | श्री जगवान दास बंस्कर | 29.03.1998 |
| 5. | श्री ए. श्रीनिवासन    | 07.08.2002 |
| 6. | श्री जय प्रकाश        | 30.06.2002 |

टी. टी. फनीडिसे  
सहा. प्रशासनिक अधिकारी  
बृहत् मुख्य निर्माता

सं. ए-31014/31/95-स्थापना-II--मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग  
निम्नलिखित फिल्म प्रभाग के अधिकारियों के नामों के आगे  
दर्शायी गयी तिथि से मुख्य छायाकार के पद पर मूल रूप से नियुक्त  
करते हैं :--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम      | तिथि       |
|----------|---------------------|------------|
| 1        | 2                   | 3          |
| 1.       | श्री अमृत पाल सिंह  | 05.07.1995 |
| 2.       | श्री पी. राजेन्द्रन | 31.03.1997 |
| 3.       | श्री बी. सुकुमारन   | 21.03.1998 |

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 10 फरवरी 2004

सं. ए-19024/3/2004-प्र.-1--पदोन्नति हेतु पर श्री पी. एस.  
वैद्य, कनिष्ठ रसायनज्ञ ने 5,500-175-9000/- रुपये के वेतनमान में  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर  
में दिनांक 13.1.2004 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ रसायनज्ञ के रूप में कार्यभार  
ग्रहण कर लिया है।

ए. के. चौधरी  
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुम्बई-400085, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. स्थापना वन ए/552:--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम                              | पद जिसका कार्यभार छोड़ा गया | कार्यभार छोड़ने की तिथि | कारण      |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 1        | 2   | 3                           | 4                       | 5         |
| 01.      | श्री रामसानी सुब्बैया                       | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ        | 30.06.2003              | अधिवर्षित |
| 02.      | श्री शैलानी गोकुल                           | वैज्ञानिक अधिकारी/डी        | 30.06.2003              | अधिवर्षित |
| 03.      | श्री सागमुवन गवैस                           | वैज्ञानिक अधिकारी/सी        | 25.09.2003              | रकापत्र   |
| 04.      | डॉ. धरनी धर ठाकुर                           | वैज्ञानिक अधिकारी/जी        | 20.10.2003              | मृत्यु    |
| 05.      | डॉ. नरसय्य साब देविक                        | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ        | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 06.      | डॉ. प्रकाश भास्करन्द रईकर                   | वैज्ञानिक अधिकारी/ई         | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 07.      | श्री नरेन्द्र दिगंबर शिर्के                 | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ        | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 08.      | श्री रेमेसन रंगराजन                         | वैज्ञानिक अधिकारी/ई         | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 09.      | डॉ. सतीश चन्द्र भार्गव                      | वैज्ञानिक अधिकारी/एच        | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 10.      | डॉ. नारा करन कृष्ण मूर्ति                   | वैज्ञानिक अधिकारी/एच        | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 11.      | श्री जसवीरसिंह अमीर सिंह                    | वैज्ञानिक अधिकारी/जी        | 31.10.2003              | अधिवर्षित |
| 12.      | श्री विनय कुमार विष्णुकान्त<br>मल्लिकार्जुन | वैज्ञानिक अधिकारी/ई         | 31.10.2003              | अधिवर्षित |

| 1   | 2                             | 3                    | 4          | 5   |
|-----|-------------------------------|----------------------|------------|---|
| 13. | श्री टी. पी. उन्नीकृष्णन      | वैज्ञानिक अधिकारी/ई  | 17.11.2003 | त्यागपत्र   |
| 14. | श्री मंगलथ उन्नीकृष्णन        | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 15. | श्री सतीश कृष्ण केलकर         | वैज्ञानिक अधिकारी/ई  | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 16. | डॉ. दुर्गा प्रसाद पांडे       | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 17. | डॉ. बेलारे बसेंत प्रल्हादराव  | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 18. | श्री शोम नाथ बागची            | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 19. | श्री करुण्येदथ पोन्न नारायणन  | वैज्ञानिक अधिकारी/ई  | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 20. | डॉ. वाराधाराजालू वेंकट राज    | उत्कृष्ट वैज्ञानिक   | 30.11.2003 | सेवावधि विस्तार के पश्चात सेवानिवृत्ति की समाप्ति |
| 21. | डॉ. अशोक कुमार दुआ            | वैज्ञानिक अधिकारी/एच | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 22. | श्री कुलीयथ गंगाधरन           | वैज्ञानिक अधिकारी/ई  | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 23. | श्रीमती सुमति मनोहर           | वरिष्ठ निजी सचिव     | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 24. | श्री किशोर तिकरम अहिर         | वैज्ञानिक अधिकारी/डी | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 24. | श्री मधुसूदन हानरा            | वैज्ञानिक अधिकारी/एच | 30.11.2003 | अधिवर्षिता  |
| 26. | श्रीमती आयेशा जबीन हक         | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ | 02.12.2003 | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति                            |
| 27. | डॉ. जॉनी के. जोसफ             | आरएमओ : एफटीए        | 17.12.2003 | त्यागपत्र   |
| 28. | डॉ. दया शंकर                  | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |
| 29. | श्री चितुर अनंथाकृष्णन कृष्णन | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |
| 30. | श्री कालिदास भट्टाचार्य       | वैज्ञानिक अधिकारी/एफ | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |
| 31. | श्री अदयापदे मोहन राव         | वैज्ञानिक अधिकारी/एच | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |
| 32. | श्री अभय कुमार सिन्हा         | वैज्ञानिक अधिकारी/जी | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |
| 33. | श्री राधे श्याम छेकरा         | वैज्ञानिक अधिकारी/एच | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |
| 34. | श्री बर्धाचारियर विजयराघवन    | वैज्ञानिक अधिकारी/ई  | 31.12.2003 | अधिवर्षिता  |

अॅन्टोनी डिसा  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 30 जनवरी 2004

सं. 6(2049)/92-प्रशा./701--राष्ट्रपति, श्री के. पद्मनाभन, विशेष कार्य अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई को इसी विभाग में दिनांक 19 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा भावी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के प्रभाव से, रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान पर अवर सचिव, भारत सरकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन  
स्टाफ सचिव अधिकारी

इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पावकम-603102, दिनांक 30 जनवरी 2004

सं. ईगांफअके/वैमि/6423/2004-भर्ती/45--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री सुनिल कुमार गुप्ता को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 9.12.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु. में प्रारम्भिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

के. अल्लाहम  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

8,000-275-13,500/- रु. में प्रारम्भिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

के. अल्लाहम  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ईगांफअके/वैमि/6424/2004-भर्ती/46--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वैजयन्त कुमार दुबे को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 22.12.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु. में प्रारम्भिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

के. अल्लाहम  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन--परमाणु खनिजअन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने अधिवर्षिता प्राप्त करने तथा ऐच्छिक सेवा विरमण के दौरान उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अन्तः कार्यभार छोड़ दिया है :--

| क्रम सं. | नाम व पदनाम                                   | कार्यभार से मुक्त होने की तारीख | चयन                        |
|----------|---|---------------------------------|----------------------------|
| 1.       | श्री एस. पी. शर्मा,<br>वैज्ञानिक अधिकारी-एच   | 25.02.2003<br>(पूर्वाह्न)       | ऐच्छिक सेवा विरमण          |
| 2.       | श्री आर. के. गुप्ता,<br>वैज्ञानिक अधिकारी-एच  | 31.12.2003<br>(पूर्वाह्न)       | अधिवर्षिता प्राप्त करने पर |
| 3.       | श्री पी. पी. सिंह,<br>वैज्ञानिक अधिकारी-जी    | 31.12.2003<br>(पूर्वाह्न)       | अधिवर्षिता प्राप्त करने पर |
| 4.       | डॉ. एच. सी. अरोड़ा,<br>वैज्ञानिक अधिकारी-एच   | 31.12.2003<br>(पूर्वाह्न)       | अधिवर्षिता प्राप्त करने पर |
| 5.       | डॉ. पी. कृष्ण मुर्ति,<br>वैज्ञानिक अधिकारी-जी | 31.12.2003<br>(पूर्वाह्न)       | अधिवर्षिता प्राप्त करने पर |

के. दामोदरन  
मुख्य प्रशासन एवं सेवा अधिकारी

सं. ईगांफअके/वैमि/6429/2004-भर्ती/47--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री सुधीर कुमार को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 19.1.2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु. में प्रारम्भिक वेतन 8,000/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

के. अल्लाहम  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ईगांफअके/वैमि/6428/2004-भर्ती/48--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री परमानन्द नामदेव दंगे को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में 5.1.2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थायी क्षमता में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर वेतनमान

जल संसाधन मंत्रालय  
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. 12-10/2के(2)/परि. एवं गोप./एच एम/वै.(स्थ.)--विभागीय प्रगति समिति (समूह "क" राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निम्नलिखित अधिकारियों ने परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है एवं तदनुसार उन्हें कनिष्ठ

भूभौतिकीविद्/रसायनज्ञ के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर कॉलम (4) और (5) में दर्शायी गई तिथि से नियुक्त किया जाता है :--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम एवं पदनाम                     | नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि | परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि | स्थायित्व की तिथि                           | वर्तमान नियुक्ति स्थान    |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1.       | श्री के. टी. सुरेश, कनिष्ठ भूभौतिकीविद्      | 08.09.1997                 | 07.09.1999                        | व. त. सहायक (भूभौतिकी) पद पर पहले से स्थायी | द. प. क्षेत्र, बंगलौर     |
| 2.       | श्री बी. के. ओरान, कनिष्ठ भूभौतिकीविद्       | 07.11.1997                 | 06.11.1999                        | 07.11.1999                                  | म. पू. क्षेत्र, पटना      |
| 3.       | श्री जी. कृष्णा मूर्ति, कनिष्ठ भूभौतिकीविद्  | 29.12.1997                 | 28.12.1999                        | 29.12.1999                                  | द. पू. म. क्षेत्र, चेन्नई |
| 4.       | श्री आर. सुरली कृष्णा, कनिष्ठ भूभौतिकीविद्   | 15.12.1997                 | 14.12.1999                        | 15.12.1999                                  | द. क्षेत्र, हैदराबाद      |
| 5.       | श्री एन. कृष्णा राव, कनिष्ठ भूभौतिकीविद्     | 08.05.2001                 | 07.05.2003                        | पहले से स्थायी                              | म. क्षेत्र, नागपुर        |
| 6.       | श्री एम. एम. श्रीवास्तव, कनिष्ठ भूभौतिकीविद् | 01.05.2001                 | 30.04.2003                        | पहले से स्थायी                              | उ. क्षेत्र, लखनऊ          |
| 7.       | श्री ओ. पी. मीणा, रसायनज्ञ                   | 23.02.1998                 | 22.02.2000                        | 23.02.2000                                  | म. पू. क्षेत्र, पटना      |

महेन्द्र मेहता  
क्षेत्रीय निदेशक एवं निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 5 फरवरी 2004

सं. 3-1464/2003-वै.स्था.-406--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर निम्न अधिकारियों को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में सहायक भूजल वैज्ञानिक (समूह 'ख'--राजपत्रित) के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से नियुक्त किया जाता है :--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम              | वर्तमान पद           | तैनाती का वर्तमान स्थान          | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | श्री प्रवीण कुमार दंदाथी    | सहायक भूजल वैज्ञानिक | केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, चंडीगढ़  | 04.12.2003 (अपराह)          |
| 2.       | श्री देवसीश बागची           | सहायक भूजल वैज्ञानिक | केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, देहरादून | 17.12.2003 (अपराह)          |
| 3.       | श्रीमती रचना                | सहायक भूजल वैज्ञानिक | केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, जम्मू    | 22.12.2003 (पूर्वाह)        |
| 4.       | कुमारी बिजिमोल जोस          | सहायक भूजल वैज्ञानिक | केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, पटना     | 31.12.2003 (पूर्वाह)        |
| 5.       | श्री श्रीहरि सारंगन एम. एस. | सहायक भूजल वैज्ञानिक | केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, पटना     | 26.12.2003 (पूर्वाह)        |
| 6.       | श्रीमती गार्गी एम. बरूआ     | सहायक भूजल वैज्ञानिक | केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, देहरादून | 14.01.2004 (पूर्वाह)        |

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वे दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर रहेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

महेन्द्र मेहता  
क्षेत्रीय निदेशक एवं निदेशक (प्रशासन)



## आयकर अधीनस्थ अधिकारण

मुम्बई-400020, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2003--श्रीमती मरिअम्मा चाको, मुख्य लिपिक, आयकर अधीनस्थ अधिकारण, कोचीन फीट, कोचीन की तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, दिनांक 01 दिसम्बर 2003 (पूर्वार्द्ध) से छः माह की अवधि के लिए, अवकाश पद के निमित्त आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले ही, आयकर अधीनस्थ अधिकारण, कोचीन फीट, कोचीन में, स्थापना रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं उस श्रेणी में करिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2003--श्री सी. एन. कुट्टी, सहायक पंजीकार, आयकर अधीनस्थ अधिकारण, कोचीन फीट, कोचीन, स्थायिक सेवा नियुक्ति लेने पर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 (पूर्वार्द्ध) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

भित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कंपनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भावन्गर केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/91/55/106817/2153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर्ग पर मैसर्स भावन्गर केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दस्तित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेस्ट कोम्ब केबिल्स गेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/90/55/102015/2136--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर्ग पर मैसर्स वेस्ट कोम्ब केबिल्स गेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दस्तित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जामनगर केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/92/55/106814/2159--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर्ग पर मैसर्स जामनगर केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दस्तित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भारती बिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 नवम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/90/55/33573/2265--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर्ग पर मैसर्स भारती बिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दस्तित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीएसजी स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 नवम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/3/05/34445/2728 और 2730--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीएसजी स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इयूरोबल एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं. 560(3)/55/97555/469/1120--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इयूरोबल एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्ड वर्थ फिनवेस्ट एण्ड स्टॉक्स लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं. 560(3)/486/55/64622/1123--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोल्ड वर्थ फिनवेस्ट एण्ड स्टॉक्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्मृति इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं. 560(3)/419/55/98618/1126--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्मृति इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गैल्टिक्स प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं. 560(3)/487/55/100471/1129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गैल्टिक्स प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. एस. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर सहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. अमरओसी/560(3)/6432/5596--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. एस. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिशान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीतम सिंह बाजवा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जलन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरजीसी/560(3)/5946/5603--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रीतम सिंह बाजवा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिश्रीलाल कनेजिया मेमोरियल हेल्थ क्लब प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जलन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरजीसी/560(3)/25347/5607--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिश्रीलाल कनेजिया मेमोरियल हेल्थ क्लब प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोच लुजीकेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जलन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरजीसी/560(3)/21487/5611--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोच लुजीकेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्टर एक्टिव एक्जोशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जलन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरजीसी/560(3)/24133/5615--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्टर एक्टिव एक्जोशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. के. स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जलन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरजीसी/560(3)/5440/5619--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. के. स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. प्लांट प्रोपर्टी मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जलन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरजीसी/560(3)/24651/5627--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. प्लांट प्रोपर्टी मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हापरलाइन इन्फोसर्व प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरओसी/560(3)/22214/5631--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हापरलाइन इन्फोसर्व प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जै दुर्गा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरओसी/560(3)/20042/5635--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जै दुर्गा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विकास ट्रेडिशनल ज्यूलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरओसी/560(3)/25428/5639--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विकास ट्रेडिशनल ज्यूलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मीडिएट फोरमूलेसन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरओसी/560(3)/21545/5643--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मीडिएट फोरमूलेसन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीमियर इलेक्ट्रो मैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरओसी/560(3)/21999/5647--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रीमियर इलेक्ट्रो मैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चोपड़ा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आरओसी/560(3)/23833/5652--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चोपड़ा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैनेस्टिक स्टायल इन्को  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आर.सी./560(3)/24673/5656—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैनेस्टिक स्टायल इन्को सर्वोत्तम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त हो जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुखमन ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट  
लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं. आर.सी./560(3)/21725/5660—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुखमन ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त हो जायेगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विक्रम गारमेट्स प्राइवेट  
लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विक्रम गारमेट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विधित्त हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स संजीव परमेश्वर प्राइवेट  
लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)/13036—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स संजीव परमेश्वर प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विधित्त हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स यू. पी. फास्टर्स लिमिटेड  
के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)/3925—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स यू. पी. फास्टर्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विधित्त हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एलोकेशन एरोएन कार्पिंग  
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)/8208—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एलोकेशन एरोएन कार्पिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विधित्त हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ओवटी ऊलेन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ओवटी ऊलेन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ओवटी कारपेट मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ओवटी कारपेट मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ओवटी डाइंग एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ओवटी डाइंग एण्ड

प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बिजनेस फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बिजनेस फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रिलायन्स फायर स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 28 जनवरी 2004

सं. एल.सी./560(3)/25718--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रिलायन्स फायर स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 3rd February 2004

No. F. 20/2004-SCA(I)—Shri Suresh Chandra, Registrar has retired from the service of the Registry of Supreme Court of India with effect from the afternoon of January 31, 2004 on his attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR  
Joint Registrar (Admn.)

The 4th February 2004

No. F. 20/2004-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Shri J.K. Sharma, Additional Registrar as Officiating Registrar with effect from the forenoon of February 3, 2004 until further orders.

ASHOK KUMAR  
Joint Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 1st January 2004

No. A. 35015/1/2004-Admn. II—Hon'ble Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri B.S. Ghuman, PPS to the post of Special Assistant to Chairman, UPSC (Group "A" Gazetted) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- on adhoc deputation basis in the Commission's office for the period w.e.f. 19.12.2003 to 29.02.2004 or until further orders, whichever is earlier.

2. During his appointment as Special Assistant on ad-hoc deputation basis, the pay of Shri B.S. Ghuman will be regulated in accordance with the provisions contained in D/o Per & Trg. O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 05.01.94 as amended from time to time.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)  
for Chairman

New Delhi-110069, the 5th January 2004

No. A. 35014/1/2001-Admn. II—In continuation of this office notification of even number dated 17.01.2002, the Secretary, UPSC hereby extends the period of deputation of Shri Harmohinder Singh, an Assistant of CSS Cadre of UPSC, to the post of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the office of UPSC for a further period of one year w.e.f. 05.01.2004 to 04.01.2005 or until further orders whichever is earlier.

2. The pay of Shri Harmohinder Singh during the period of deputation as above shall continue to be regulated in accordance with the provisions contained in D/o Per. &

Trg. O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 05.01.94 as amended from time to time.

K. S. SAMPATH  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 3rd February 2004

No. 2/12/04-Admn. /1818—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following Assistants in the Commission as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- purely on ad-hoc basis for a period of three months w.e.f. 22.01.2004 (F/N) or until orders, whichever is earlier :—

1. Shri V. K. Saini
2. Shri Mukesh Kumar

2. Their appointments to the post of Section Officer are made purely on ad-hoc basis under Rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

MANGE LAL  
Dy. Secy. (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

The 4th February 2004

No. 2/4/04-Admn./1949—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following permanent Assistants in the Commission as Section Officers in the Commission in officiating capacity in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 03.02.2004 (F/N) until further orders :—

1. Shri Vijay Kumar Saini
2. Shri Mukesh Kumar
3. Shri Francis Elka

MANGE LAL  
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DIRECTORATE GENERAL CRPF)

New Delhi, the 23rd January 2004

No. O. II, 5493/03-Para-1—Consequent on acceptance of his notice dated 1.6.2003 for voluntary retirement from Government service Shri Dalip Singh, Asstt. Commandant (IRLA 5493) of 6 Bn, CRPF has been relieved from the post on 1-10-2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 1.10.2003 (FN).

THE ACCOUNTS  
OFFICER  
FOR THE  
DIRECTORATE GENERAL CRPF

**DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-3, the 4th February 2004

No. E-28017/5/Noti Retd./RRN/2004/Pers. II/311—  
Consequent upon his voluntary retirement from Govt. service under Rule-48 of CCS (Pension), Rules 1972, Shri R. Ravindranathan, relinquished the charge of the post of Deputy Commandant, CISF Unit, Calicut Airport, Kerala in the forenoon of 17.01.2004.

Sd./- ILLEGIBLE  
Director General (C.I.S.F.)

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES**

New Delhi-110002, the 9th February 2004

Admn. I/O.O. No. 268—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi has ordered under F.R. 22(II), the Proforma Promotion of Smt. K.S. Ramakrishna, Section Officer at present on deputation with the O/o the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi to the grade of Assistant Audit Officer (Group 'B') in a temporary capacity in the scale of Rs. 7450-225-11500 w.e.f. 01.01.2004 until further orders.

Sd./- ILLEGIBLE  
Dy. Director (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)  
JHARKHAND (LOCAL AUDIT WING)**

Ranchi, the 30th January 2004

No. L. A. Admn. I Estt. I Promo. AAO—The Accountant General (Audit) Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote the following officials of Local Audit Wing to officiate as Assistant Audit Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 with effect from 01-01-2004 (F/N) till further orders :—

1. Sri Sanjeev Kumar Verma
2. Sri Syed Zia Naiyar Shahabi

MANISH KUMAR  
Examiner of Local Accounts  
Jharkhand

No. L. A. Admn. I Estt. I Promo A.O to Sr. AO 74 of 03/04—The Accountant General (Audit) Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote the following Audit officers of Local Audit Wing to officiate as Senior Audit Officer in

the pay scale of Rs. 8000-275-13500 with effect from 01-01-2004(F/N) till further orders :—

| Sl No. | Name                 |
|--------|----------------------|
| 1.     | Shri D. C. Choudhary |
| 2.     | Shri Ramanand Prasad |
| 3.     | Shri H. K. Singh     |

MANISH KUMAR  
Examiner of Local Accounts  
Jharkhand

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
WEST BENGAL**

Kolkata-700 001, the 1st January 2004

No. Admn. I/1038-XXV/2003-04/409—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to appoint Shri Prakash Chandra Basu, Asstt. Accounts Officer as Accounts Officer in the scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date of taking over his charge.

Shri Basu on his promotion as accounts Officer may exercise his option under FR 22 I (a) (i) within one month from the date of issue of this order for fixation of pay.

His posting order will be issued separately.

N. N. HALDER  
Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL, AUDIT-I, ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500004, the 3rd February 2004

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Senior Audit Officers" (Civil) in the Scale of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from the date(s) mentioned against their names :—

| Sl. No. | Name of the Officer | Office Order No. & Date | Date of Assumption of charge |
|---------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1       | 2                   | 3                       | 4                            |
|         | S/Shri              |                         |                              |
| 1.      | Mohd Sadal Ali      | 161/31-12-2003          | 01-01-2004<br>FN             |
| 2.      | K.V.R. Mohan Rao    | 161/31-12-2003          | 01-01-2004<br>FN             |
| 3.      | T. Soetarama Murty  | 161/31-12-2003          | 01-01-2004<br>FN             |
| 4.      | K. Solomon Raju     | 161/31-12-2003          | 01-01-2004<br>FN             |



| 1   | 2                             | 3              | 4                |
|-----|-------------------------------|----------------|------------------|
| 5.  | S. Dattatreya Sarma           | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 6.  | M. Rama Murty-II              | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 7.  | M. Suryanarayana<br>Murthy-II | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 8.  | A. Raja Gopal                 | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 9.  | K. Viswanatham-II             | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 10. | Y. Rosi Reddy                 | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 11. | V. Ramulu                     | 161/31-12-2003 | 09-01-2004<br>FN |
| 12. | M. Lakshmipathi Rao           | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 13. | G. Venkata Rao-IV             | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 14. | K.S. Satyanarayana<br>Murthy  | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 15. | V. Suresh Kumar               | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 16. | P. Raja Gopala Rao-I          | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 17. | E. Araasu                     | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 18. | B. Hanumanth                  | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 19. | G. Sree Krishna               | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 20. | B.V. Ramakrishna<br>Raja      | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 21. | M. Rama Krishna               | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 22. | A.S.S.V.S.R. Sarma            | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 23. | M. Sanjeeva Reddy             | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 24. | G. Siva Prasad                | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 25. | Pulipaka Srinivas             | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 26. | G.L. Narasimha Rao-II         | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |
| 27. | T. Rama Prasad                | 161/31-12-2003 | 01-01-2004<br>FN |

The above promotion is ordered without prejudice to the claims of his seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above official should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F. 7/1/80-Estt.(P.I) dated 26.09.1981 and F. 13/26.82-Estt.(P-I) dated 08.02.1983.

Sd/- ILLEGIBLE

Dy. Accountant General (Administration)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 5th February 2004

No. A-19018/286/77-Admn(G).—On attaining the age of superannuation, Shri M.N. Guha, Director (Central Secretariat Service Officer), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi retired from Government service on the afternoon of 31.01.2004.

S.V.N. PILLAI, Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/757/84-Admn(G).—The President is pleased to appoint Shri I.J. Khushu, Assistant Director (Grade I) (Food), Branch Small Industries Institute, Jammu as Deputy Director (Food) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Institute with effect from the forenoon of 24.12.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI, Dy. Dir. (Admn.)

KHAN MANTRALAYA  
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 4th February 2004

No. 323/B/A-19011(1-AG)/03/19A.—The President is pleased to appoint Shri Arindam Guha to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15.12.2003 until further orders.

S.K. SINHA,  
Senior Administrative Officer  
for Dir. General

No. 339/B/A-19011(1-DK)/03/19A.—The President is pleased to appoint Smt. Deepali Kapoor to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum

of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 10.10.2003 until further orders.

S.K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Dir. General

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

Mumbai-400026, the 23rd January 2004

No. A-31014/3/86-Estt. II.—The Chief Producer, Films Division appoints the undermentioned officers of the Films Division to the post of Branch Manager in substantive capacity with effect from the date shown against each:—

| Sr.No. | Name                     | Date       |
|--------|--------------------------|------------|
| 1      | Shri Ma Selvam           | 01.04.1988 |
| 2      | Shri K.C. Sagar          | 09.04.1992 |
| 3      | Shri Anil Kumar N.       | 03.10.1998 |
| 4      | Shri K. Venugopal        | 01.07.1998 |
| 5      | Smt. Geetha Pious        | 24.10.1998 |
| 6      | Shri P. Rama Manohar Rao | 31.03.1999 |
| 7      | Shri R.K. Chandel        | 03.06.1998 |
| 8      | Shri Sumay Mukharjee     | 16.03.2001 |
| 9      | Shri A.K. Maharaja       | 27.12.2002 |

T.T. FERNANDES  
Asstt. Administrative Officer  
For Chief Producer

No. A-31014/1/87-Estt. II.—The Chief Producer, Films Division appoints the under mentioned officer of the Films Division to the post of Cameraman in substantive capacity with effect from the date shown against him :—

Shri K.S. Sridhar 10.03.2001

T.T. FERNANDES  
Asstt. Administrative Officer  
For Chief Producer

No. A-31014/1/95-Estt. II.—The Chief Producer, Films Division appoints the under mentioned officers of the Films Division to the post of Chief Cameraman in substantive capacity with effect from the date shown against each:—

| Sr.No. | Name of the Officer       | Date       |
|--------|---------------------------|------------|
| 1      | 2                         | 3          |
| 1.     | Shri Amrit Pal Singh      | 05.07.1995 |
| 2.     | Shri P. Rajendran         | 31.03.1997 |
| 3.     | Shri V. Sukumaran         | 21.03.1998 |
| 4.     | Shri Bhagwan Das Banshkar | 29.03.1998 |

| I  | 2                  | 3          |
|----|--------------------|------------|
| 5. | Shri A. Srinivasan | 07.08.2002 |
| 6. | Shri Jai Prakash   | 30.06.2002 |

T.T. FERNANDES  
Asstt. Administrative Officer  
for Chief Producer

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPTT. OF AGRI. & COOPERATION) DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

N.H. IV, Faridabad-121001, the 10th February 2004

No. A-19024/3/2004-A.I.—Consequent on his promotion, Sh. P.S. Vaidya, Jr. Chemist, has joined duties as Senior Chemist in the pay scale of Rs. 5500-175-9000/- in the Dte. of Marketing & Inspection at Central Agmark Laboratory, Nagpur w.e.f. 13.1.2004 (Forenoon).

A.K. CHOPRA  
Under Secy.

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 5th February 2004

No. Estt. IA/552 :—

| Sl. No. | Name of the Officer            | Relinquished the Charge of the post of | Date of relinquishment | Event          |
|---------|--------------------------------|--|------------------------|----------------|
| 1       | 2                              | 3                                      | 4                      | 5              |
| 01.     | Shri Ramasamy Subbiah          | SO/F                                   | 30.06.2003 (AN)        | Superannuation |
| 02.     | Shri Seshadri Gokul            | SO/D                                   | 30.06.2003 (AN)        | Superannuation |
| 03.     | Shri Shanmugham Ganesh         | SO/C                                   | 25.09.2003 (FN)        | Resignation    |
| 04.     | Dr. Dharni Dhar Upadhyaya      | SO/G                                   | 20.10.2003 (AN)        | Death          |
| 05.     | Dr. Narayan Samb Dixit         | SO/F                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |
| 06.     | Dr. Prakash Bhalchandra Ruikar | SO/E                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |
| 07.     | Shri Narendra Dinkar Shirke    | SO/H                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |
| 08.     | Shri Remesan Rangarajan        | SO/E                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |
| 09.     | Dr. Satish Chandra Bhargava    | SO/H                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |
| 10.     | Dr. Narra Bala Krishna Murthy  | SO/H                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |
| 11.     | Shri Jasbir Singh Amir Singh   | SO/G                                   | 31.10.2003 (AN)        | Superannuation |

| 1   | 2                                     | 3                     | 4               | 5  |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 12. | Shri Vinaykumar Vishnupant Malthankar | SO/E                  | 31.10.2003 (AN) | Superannuation   |
| 13. | Shri T.P. Unnikrishnan                | SO/E                  | 17.11.2003 (FN) | Resignation  |
| 14. | Shri Mangalath Unnikrishnan           | SO/F                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 15. | Shri Satish Krishna Kelkar            | SO/E                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 16. | Dr. Durga Prasad Pandey               | SO/F                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 17. | Dr. Bellary Vasant Pralhadrao         | SO/G                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 18. | Shri Shome Nath Bagchi                | SO/G                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 19. | Shri Karuthedath Ponnai Narayanan     | SO/E                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 20. | Dr. Varadharajulu Venkat Raj          | O.S.                  | 30.11.2003 (AN) | Expiry of the extension of his services beyond Superannuation. |
| 21. | Dr. Ashok Kumar Dua                   | SO/H                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 22. | Shri Kuyilath Gangadharan             | SO/E                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 23. | Smt. Sumathy Manohar                  | Senior Pvt. Secretary | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 24. | Shri Kishor Tikaram Ahir              | SO/D                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 25. | Shri Madhusudan Hanra                 | SO/H                  | 30.11.2003 (AN) | Superannuation   |
| 26. | Smt. Ayesta Jabeen Haq                | SO/F                  | 02.12.2003 (FN) | Vol. Retirement  |
| 27. | Dr. Johny K. Joseph                   | RMO (FTA)             | 17.12.2003 (FN) | Resignation  |
| 28. | Dr. Daya Shankar                      | SO/G                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |
| 29. | Shri Chittur Ananthakrishnan Krishnan | SO/G                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |
| 30. | Dr. Kalidas Bhattacharya              | SO/F                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |
| 31. | Shri Adyapady Mohan Rao               | SO/H                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |
| 32. | Shri Abhay Kumar Sinha                | SO/G                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |
| 33. | Shri Radhey Shyam Chhokra             | SO/H                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |
| 34. | Shri Varadachariar Vijayaraghavan     | SO/E                  | 31.12.2003 (AN) | Superannuation   |

ANTHONY DE SA  
Controller

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 30th January 2004

No. 6(2049)/92/Adm/70.—The President is pleased to appoint Shri K. Padmanabhan, Officer-on-Special-Duty (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/-), Department of Atomic Energy, Mumbai, as Under Secretary to the Government of India (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/-) in the same Department with effect from the forenoon of January 19, 2004 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

M. VENUGOPALAN  
Staff Relations Officer

## INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 30th January 2004

No. IGC/PF/6423/2004-R/45.—President is pleased to appoint Shri Sanil Kumar Gupta in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 09.12.2003 in a temporary capacity until further orders.

K. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/6424/2004-R/46.—President is pleased to appoint Shri Jainendra Kumar Dubey in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 22.12.2003 in a temporary capacity until further orders.

K. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/6429/2003-R/47.—President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 19.01.2004 in a temporary capacity until further orders.

K. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

No. IGC/PF/6428/2004-R/48.—President is pleased to appoint Shri Paramanand Namdeo Dange in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the

scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 05.01.2004 in a temporary capacity until further orders.

A. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

No. IG/CP/6427/2004-R/49.—President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Sharma in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 05.01.2004 in a temporary capacity until further orders.

K. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500016, the 4th February 2004

No. AMD-51(59)/2002-Pen.—On attaining the age of superannuation and on retiring voluntarily, the following

Officers(s) has/have relinquished the charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the dates mentioned against each :—

| S. No. | Name and Designation       | Date of Relinquishment | Event           |
|--------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 1.     | Shri S.P. Sharma, SO-F     | 25.2.2003 (FN)         | Vol. Retirement |
| 2.     | Shri K.R. Gupta, SO-H      | 31.12.2003             | Superannuation  |
| 3.     | Shri P.P. Singh, SO-G      | 31.12.2003             | Superannuation  |
| 4.     | Dr. H.C. Arora, SO-H       | 31.12.2003             | Superannuation  |
| 5.     | Dr. P. Krishnamurthy, SO-G | 31.12.2003             | Superannuation  |

K. DAMODARAN  
Chief Administrative and Accounts Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES  
(CENTRAL GROUND WATER BOARD)

NH IV, Faridabad, the 27th January 2004

No. 12-10/2K(2)/Prob. & Conf./JrGP-Chem/Sci(Estt.).—On the recommendation of DPC (Group-A – Gazetted) and on the approval of the competent authority, the following officers have completed their probationary period satisfactorily and subsequently appointed substantively as Junior Geophysicist/Chemist in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the date shown in Col. No.(4) & (5) :—

| S. No. | Name & Designation of the Officer          | Date of Appointment/promotion | Date of Completion of Probation period | Date of permanency     | Present place of posting |
|--------|--|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 1      | 2  | 3                             | 4                                      | 5                      | 6                        |
| 1.     | Sh. K.T. Suresha, Junior Geophysicist      | 8.9.97                        | 7.9.99                                 | Already pmt in STA(GP) | SWR, Bangalore           |
| 2.     | Sh. B.K. Oraon, Junior Geophysicist        | 7.11.97                       | 6.11.99                                | 7.11.99                | MER, Patna               |
| 3.     | Sh. G. Krishna Murthy, Junior Geophysicist | 29.12.97                      | 28.12.99                               | 29.12.99               | SECR, Chennai            |
| 4.     | Sh. R. Murali Krishna, Junior Geophysicist | 15.12.97                      | 14.12.99                               | 15.12.99               | SR, Hyderabad            |
| 5.     | Sh. N. Krishna Rao, Junior Geophysicist    | 8.5.2001                      | 7.5.2003                               | Already pmt            | CR, Nagpur               |
| 6.     | Sh. M.M. Srivastava, Junior Geophysicist   | 1.5.2001                      | 30.4.2003                              | Already pmt            | NR, Lucknow              |
| 7.     | Sh. O.P. Meena, Chemist                    | 23.2.1998                     | 22.2.2000                              | 23.2.2000              | MER, Patna               |

M. MEHTA  
Regional Director & Director (Admn.)

The 5th February 2004

No. 3-1464/2003-Sci. Estt. 406.—On the recommendations of the UPSC the following officers have been appointed to the post of Assistant Hydrogeologists (Group-B, Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown against each :—

| S.No. | Name of the officer         | Place of posting      | Date of Joining |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.    | Sh. Praveen Kumar Gandrathi | CGWB, NWR, Chandigarh | 4.12.2003(AN)   |
| 2.    | Sh. Debasish Bagchi         | CGWB, UR, Dehradun    | 17.12.2003(AN)  |
| 3.    | Smt. Rachna                 | CGWB, NWHR, Jammu     | 22.12.2003(FN)  |
| 4.    | Miss Bijimole Jose          | CGWB, MER, Patna      | 31.12.2003(FN)  |
| 5.    | Sh. Sreehari Sarangan M.S.  | CGWB, MER, Patna      | 26.12.2003(FN)  |
| 6.    | Smt. Gargee M. Baruah       | CGWB, UR, Dehradun    | 14.1.2004(FN)   |

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

M. MEHTA

Regional Director and Director (Admn.)

**INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL**

Mumbai-400020, the 03rd December 2003

No. F. 48-Ad(AT)/2003.—Smt. Mariamma Chacko, Head Clerk, Income-tax Appellate Tribunal, Cochin Bench, Cochin Bench, Cochin is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Cochin Bench, Cochin on ad hoc basis in a temporary capacity for a period of six months with effect from the forenoon of 1st December, 2003 or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

The above appointment is ad hoc and will not bestow upon her a claim for regular appointment in that grade and services rendered by her on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

No. F. 48-Ad(AT)/2003.—Shri C.N. Kutty, Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Cochin Bench, Cochin, retired from Government Service on voluntary retirement with effect from the forenoon of 1st December, 2003.

VIMAL GANDHI  
President**MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhavnagar Cables Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 5th November 2003

No. u/s./560(3)/SES/91/55-106817/2153.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Bhavnagar Cables Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI

Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. West Bombay Cables Network Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 5th November 2003

No. u/s./560(3)/SES/90/55-102015/2156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. West Bombay Cables Network Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI

Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jamnagar Cables Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 5th November 2003

No. u/s./560(3)/SES/92/55-106814/2159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Jamnagar Cables Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary,

will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharthari Chits Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 10th November 2003

No. u/s./560(3)/SES/60/05-33572/2265.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Bharthari Chits Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. BSG Strips Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 21st November 2003

No. u/s./560(3)/SES/3/05-J2445/2728.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. BSG Strips Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Durable Advertising Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 12th January 2004

No. u/s./560(3)/55/97555/469/1120.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Durable Advertising Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gold Worth Finvest & Stocks Limited.

New Delhi-110 003, the 12th January 2004

No. u/s./560(3)/486/55/64622/1123.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Gold Worth Finvest & Stocks Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Smirti Informatics Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 12th January 2004

No. u/s./560(3)/419/55/98618/1126.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Smirti Informatics Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Glitter Properties Pvt. Limited.

New Delhi-110 003, the 12th January 2004

No. u/s./560(3)/487/55/100471/1129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Glitter Properties Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S.S. Constructions Pvt. Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/6432/5599.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. S.S. Constructions Pvt.

Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pritam Singh Bajwa & Bros. Pvt. Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/5946/5603.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Pritam Singh Bajwa & Bros. Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mishri Lal Kanojia Memorial Health Club Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/25347/5607.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Mishri Lal Kanojia Memorial Health Club Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coach Lubricants Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/21487/5611.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Coach Lubricants Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interactive Education Systems Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/24/5615.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Interactive Education Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. K. Sports Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/5440/5619.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. A. K. Sports Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Key Point Property Management Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/24651/5627.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Key Point Property Management Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hypertek Infoterve Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/22214/5631.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months

from the date hereof the name of M/s. Hyperlink Infoserve Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jai Durga Cold Storage Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/20042/5635.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Jai Durga Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikas Traditional Jewellers Private Limited

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/25428/5639.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Vikas Traditional Jewellers Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mediate Formulation (India) Private Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/22545/5643.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Mediate Formulation (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Premier Electromech Private Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/21999/5647.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Premier Electromech Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chopra Infotech Private Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/23833/5652.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Chopra Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Majestic Style Info Services Private Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/24673/5656.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Majestic Style Info Services Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sukhman Trading Company Private Limited.

Jalandhar City, the 4th February 2004

No. ROC/560(3)/21727/5660.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sukhman Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary will



be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikram Garment Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/10812—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Vikram Garment Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjeev Polymers Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/13036/10814—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sanjeev Polymers Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. U.P. Fastners Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/3925/10816—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. U.P. Fastners Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alaknanda Alloys Casting Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/3708/10818—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Alaknanda Alloys Casting Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Obectee Woolen Mills Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/4940/10820—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Obectee Woolen Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Obectee Carpet Manufacturers Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/4958/10822—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Obectee Carpet Manufacturers Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Obectee Dyeing & Processing Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/4976/10824—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the

date hereof, the name of M/s. Obeetee Dyeing & Processing Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bijnor Finance Company Private Limited.

Kanpur-208001, the 27th January 2004

No. 560(3)/LC/3720/10826—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bijnor Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary will

be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reliable Ferro Steels Private Limited.

Kanpur-208001, the 28th January 2004

No. 560(3)/LC/25718/10862—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Reliable Ferro Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal